



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 810 राँची, मंगलवार,

15 अक्टूबर, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर, 2019

विषय:- झारखण्ड कृषि सेवा संवर्ग कोटि-8 (माप तौल एवं विपणन) के अन्तर्गत विभिन्न पदों को चिन्हित/पहचानित करने के संबंध में।

संख्या - मापतौल/खा.स्था.10/2017 - 2989,-- बिहार राज्य विभाजन एवं झारखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त कैडर विभाजन में जो पद झारखण्ड राज्य को प्राप्त हुए हैं (375 पद) वे कोटिवार न होकर पदवार प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के ज्ञापांक-06/कृ०स्था०विविध-01/2014/3534/कृ०, राँची, दिनांक 16.09.2015 एवं ज्ञापांक-06/कृ०स्था०विविध-01/2014/1608/कृ०, राँची, दिनांक 04.05.2016 द्वारा कोटि 1 से 9 तक हेतु कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) स्तर पर चिन्हित/पहचानित पदों (कृषि निदेशक-1, अपर कृषि निदेशक-1, संयुक्त कृषि निदेशक-8, उप कृषि निदेशक-46 एवं सहायक कृषि निदेशक-307) कुल 363 पदों को छोड़कर कोटि 8 (माप तौल एवं विपणन) हेतु कुल 12 पदों को निम्न रूप से चिन्हित/पहचानित किया जाता है:-

क्र.सं.	वर्तमान पदनाम	संसोधित/पुनर्नामित	पदनाम वेतनमान	पदों की सं०
1	संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक, माप एवं तौल, झारखण्ड, राँची।	नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, झारखण्ड, राँची।	15600-39100 ग्रेड पे-7600	1
2	उप कृषि निदेशक सह संयुक्त नियंत्रक, माप एवं तौल, राँची।	संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची।	15600-39100 ग्रेड पे-6600	1
3	सहायक कृषि निदेशक सह उप नियंत्रक, माप एवं तौल कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक, माप एवं तौल, झारखण्ड, राँची।	उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, झारखण्ड, राँची।	9300-34800 ग्रेड पे-5400	1
4	सहायक कृषि निदेशक सह उप नियंत्रक, माप एवं तौल, राँची/हजारीबाग।	उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची/हजारीबाग।	9300-34800 ग्रेड पे-5400	2
5	सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, राँची, पलामू, चाईबासा, धनबाद, गिरिडीह एवं दुमका।	सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची, पलामू, चाईबासा, धनबाद, गिरिडीह एवं दुमका	9300-34800 ग्रेड पे-5400	6
6	सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, द्वितीय मानक प्रयोगशाला, राँची।	सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, द्वितीय मानक प्रयोगशाला, राँची	9300-34800 ग्रेड पे-5400	1

2. पद चिन्हितकरण के फलस्वरूप पूर्व के निर्गत अधिसूचना/निर्णय निरसित समझे जायेंगे।

3. चिन्हित पदों को संशोधित/पुनर्नामित करने, त्रुटि का निराकरण करने तथा मुख्यालय निर्धारित करने की शक्ति प्रशासी विभाग में निहित होगी तथा किसी प्रकार की शंका के निवारण हेतु निदेश/पत्र/ अधिसूचना प्रशासी विभाग निर्गत कर सकेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

4. चिन्हित/पहचानित पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे एवं 7वाँ वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प संख्या 217/वि० दिनांक 18.01.2017 अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।
